



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1937 (श०)
(सं० पटना 17) पटना, बृहस्पतिवार, 7 जनवरी 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
7 अक्टूबर 2015

सं० 22 नि० सि० (मोति०)—08—15/2014/2299—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन चम्पारण तटबंध प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन चम्पारण तटबंध के कि० मी० 9.00 पर हुए टूटान/कटाव में बरती गई लापरवाही आदि कतिपय आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए श्री अशोक कुमार (आई० डी० 5197), सहायक अभियंता, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी को विभागीय अधिसूचना संख्या 1108 दिनांक 16.08.14 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञाप संख्या 26 दिनांक 06.01.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 602 दिनांक 25.06.15 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा करने एवं निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अशोक कुमार (निलंबित), सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा मुख्यालय में योगदान देने हेतु निदेशित किया जाता है।

(ii) द्वितीय कारण पृच्छा का पत्र अलग से निर्गत किया जा रहा है।
उक्त आदेश श्री कुमार, सहायक अभियंता को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 17-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>